

6 दिवसीय महिला नेटून्य विकास प्रशिक्षण 2013-14

प्रशिक्षण क्षेत्रः—पूर्व बेलवे भाषत बकाउट एण्ड गार्ड इन्स्टेट ट्रेनिंग पार्क, मध्यपुरक

प्रशिक्षण शिड्यूल बैच-१ व बैच-२

| दिन | समय/जाग | प्रशिक्षण का विषय/गतिविधियां | प्रशिक्षण का माध्यम | जंदर्भ/थोत व्यक्ति बैच-१ | जंदर्भ/थोत व्यक्ति बैच-२ |
|-------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|
| पहला दिन १०-०९-१३ | ९:३० बजे पूर्व प्रथम जाग | प्रशिक्षणार्थीयों का पंजीयन एवं प्रशिक्षणक्रिट का वितरण अंदुकत संग | औपचारिक | जंक्या की महिला कार्यकर्ता रेशमा प्रवीण, जंक्या जाचिक, | जंक्या की महिला कार्यकर्ता बहामुनी हेमंत जंक्या जाचिक, पंचायत |
| | १०:०० बजे पूर्व उद्घाटन संग | उद्घाटन संग एवं विषय प्रवेश अंदुकत संग | औपचारिक | प्रभुवा, मुखिया, मिडिया कमी | जामिति प्रभुवा, मुखिया, मिडिया कमी |
| | ११:०० बजे | चाय हेतु अंवकाश | | | |
| | ११:१५ बजे | सहभागियों का पक्षिचय | वक्तव्य एवं जामूह चर्चा | शमशोर आलम | अबुतालिब अंसारी |
| | प्रथम जाग | अल्पसंख्यक जमुदाय क्या है? महिलाओं की वर्तमान स्थिति | | प्रदीप झिंह | अरुण निहीर |
| | १:०० बजे | भोजनावकाश | | | |
| | २:०० बजे अ० | महिला - अर्थ एवं सामाजिक जंदर्भ द्वितीय संग | वक्तव्य एवं जामूह चर्चा | वही | वही |
| | ३:०० बजे | चाय का अंवकाश | | | |
| | ३:१५ बजे | नेटून्य किसे कहते हैं? महिला नेटून्य की आवश्यकता | जंदर्भ पुस्तिका | वही | वही |
| द्वितीय दिन ११-०९-१३ | ९:३० बजे पूर्व प्रथम जाग | प्रशिक्षण क्या है? विकास किसे कहते हैं? | जंदर्भ पुस्तिका, वक्तव्य एवं जामूह चर्चा | शमशोर आलम प्रदीप झिंह | अबुतालिब अंसारी अरुण निहीर |
| | ११:०० बजे | चाय का अंवकाश | | | |
| | ११:१५ बजे | विकास क्यों अवश्यक है? महिला नेटून्य विकास प्रशिक्षण का तात्पर्य | वक्तव्य एवं जुली चर्चा | वही | वही |
| | १:०० बजे | भोजनावकाश | | | |
| | २:०० बजे अ० | नेटून्य की पक्षिभाषा नेता के आवश्यक गुण | जंदर्भ पुस्तिका | वही | वही |
| | ३:०० बजे | चाय का अंवकाश | | | |
| | ३:१५ बजे | जीने की कला क्या है? | वक्तव्य एवं जंदर्भ पुस्तिका | वही | वही |
| तीसरा दिन १२-०९-१३ | ९:३० बजे पूर्व प्रथम जाग | जीने की कृषि बुनियादी कलाएं | जंदर्भ पुस्तिका जामूह चर्चा | प्रदीप कुमार झिंह | शमशोर आलम हजाधन मुरव्वी |
| | ११:०० बजे | चाय का अंवकाश | | | |
| | ११:१५ बजे | व्यवसायिक प्रशिक्षण अवकाश द्वारा संचालित व्यवसायिक प्रशिक्षण | जंदर्भ पुस्तिका जामूह चर्चा | वही | वही |
| | १:०० बजे | भोजनावकाश | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|--|---------------------------------------|--|---|
| चौथा दिन १३-०९-१३ | २:०० बजे अ० | महिलाओं के सम्बोधित समवयाएं महिलाओं के सम्बोधित समवयाओं का समाधान | संदर्भ पुस्तिका सभूह चर्ची | वही | वही |
| | ३:०० बजे | चाय का आवकाश | | | |
| | ३:१५ बजे | महिलाओं के अधिकार प्रधानमंत्री का १५ जूनी कार्यक्रम | वक्तव्य एवं संदर्भ सामग्री | प्रदीप कुमार सिंह अरुण निहिंसा | शमशेष आलम हराधन मुख्यमंत्री |
| | ४:३० बजे पू० | जनाधिकार मुकदमा प्रथम संगठन के लिए शैक्षणिक योजनाएं | संदर्भ पुस्तिका | हराधन मुख्यमंत्री, शमशेष आलम, उमा चौरसिया | प्रदीप कुमार सिंह, अरुण निहिंसा, उमा चौरसिया |
| | ११:०० बजे | चाय का आवकाश | | | |
| | ११:१५ बजे | महिला व रोजगार | वक्तव्य एवं सभूह चर्ची | वही | वही |
| | १:०० बजे | भोजनावकाश | | | |
| | २:०० बजे अ० | प्रधानमंत्री रोजगार योजना रोजगार गारंटी योजना | वक्तव्य एवं संदर्भ पुस्तिका | वही | वही |
| | ३:०० बजे | चाय का आवकाश | | | |
| | ३:१५ बजे | खर्च जर्यांती खर्चरोजगार योजना | संदर्भ पुस्तिका | वही | वही |
| पांचवां दिन १४-०९-१३ | ४:३० बजे पू० | जवाहर ग्राम समृद्धि योजना प्रथम संगठन | वक्तव्य एवं सभूह चर्ची | अबुतालीब अंसारी हराधन मुख्यमंत्री | प्रदीप कुमार सिंह शमशेष आलम |
| | ११:०० बजे | चाय का आवकाश | | | |
| | ११:१५ बजे | खर्च सहायता सभूह एकग्रुटा, खर्चरोजगार और विकास | एल.सी.डी. प्रोजेक्टर | वही | वही |
| | १:०० बजे | भोजनावकाश | | | |
| | २:०० बजे अ० | खर्च सहायता सभूह का नियमित संचालन के होने वाले लाभ | वक्तव्य | वही | वही |
| छठा दिन १५-०९-१३ | ३:०० बजे | चाय का आवकाश | | | |
| | ३:१५ बजे | आपसी सूझा-बूझा, नेटूरल व ग्राम जागरूकता | एल.सी.डी. प्रोजेक्टर | वही | वही |
| | ४:३० बजे पू० | महिला व खाद्य सुरक्षा प्रथम संगठन | वक्तव्य एवं सभूह चर्ची | अरुण निहिंसा, महबुब अंसारी, इन्द्राजान देवी | प्रदीप कुमार सिंह, शिक्षक आलम, इन्द्राजान देवी |
| | ११:०० बजे | चाय का आवकाश | | | |
| | ११:१५ बजे | परिवार नियोजन का महत्व लाडली लक्ष्मी योजना | वक्तव्य | वही | वही |
| | १:०० बजे | भोजनावकाश | | | |
| | २:०० बजे अ० | प्रशिक्षण की समीक्षा | | अरुण निहिंसा, महबुब अंसारी, इन्द्राजान देवी | प्रदीप कुमार सिंह, शिक्षक आलम, इन्द्राजान देवी |
| | ३:०० बजे | चाय का आवकाश | | | |
| | ३:१५ बजे | प्रतिभागियों के बीच प्रभाण पर्जन वितरण संयुक्त संगठन | संस्था सचिव, प्रभुवा, मिडिया कर्मी | संस्था सचिव, प्रभुवा, मिडिया कर्मी | |

6 दिवसीय महिला नेतृत्व प्रशिक्षण 2013-14
प्रशिक्षण स्थल: मैडीकोर्टी (मधुबन) मठात्मा गांधी बोड, ४२ बीघा, मधुपुर
प्रशिक्षण रिड्यूल बैच-3 व बैच-4

| दिन | समय/संज | प्रशिक्षण का विषय/गतिविधियाँ | प्रशिक्षण का माध्यम | संदर्भ/प्रोत्त व्यक्ति बैच-३ | संदर्भ/प्रोत्त व्यक्ति बैच-४ |
|-----------------------|--------------------------|--|---|--|--|
| पहला दिन १७-०९-१३ | ९:३० बजे पूर्व | प्रशिक्षणार्थीयों का पंजीयन एवं प्रशिक्षणक्रिट का वितरण, संयुक्त संज | औपचारिक | संस्था की महिला कार्यकर्ता रेखामा प्रवीण | संस्था की महिला कार्यकर्ता बहामुनी हेम्ब्राम |
| | १०:०० बजे पूर्व | उद्घाटन संज एवं विषय प्रवेश, संयुक्त संज | औपचारिक | संस्था सचिव, बीड़ीयो, नगर पर्षद अध्यक्ष, मुखिया, मिडिया कर्मी, | संस्था सचिव, बीड़ीयो, नगर पर्षद अध्यक्ष, मुखिया, मिडिया कर्मी, |
| | ११:०० बजे | चाय हेतु आवकाश | | | |
| | ११:१५ बजे प्रथम संज | सहभागियों का परिचय, अल्पसंव्यक्त का अर्थ अल्पसंव्यक्त समुदाय की महिलाओं की स्थिति | वक्तव्य एवं समूह चर्चा | शमशोर आलम अक्षण निहीर | मो० अंबुतालिन प्रदीप सिंह |
| | १:०० बजे | भोजनावकाश | | | |
| | २:०० बजे अं० द्वितीय संज | महिलाओं का महत्व, सामाजिक लिंग भेद | वक्तव्य एवं समूह चर्चा | शमशोर आलम अक्षण निहीर | मो० अंबुतालिन प्रदीप सिंह |
| | ३:०० बजे | चाय का आवकाश | | | |
| | ३:१५ बजे | जीवन और इसके आधारभूत तत्व सजहल और महिलाएं | वक्तव्य एवं समूह चर्चा | वही | वही |
| दूसरा दिन १८-०९-१३ | ९:३० बजे पूर्व प्रथम संज | नेता और नेतृत्व क्या है? महिला और नेतृत्व | संदर्भ पुस्तिका, वक्तव्य एवं समूह चर्चा | शमशोर आलम प्रदीप सिंह | मो० अंबुतालिन सरकरी मुख्यमंत्री |
| | ११:०० बजे | चाय का आवकाश | | | |
| | ११:१५ बजे | नेतृत्व प्रशिक्षण क्या है? महिला नेतृत्व विकास की अवधारणा | संदर्भ पुस्तिका, वक्तव्य एवं समूह चर्चा | वही | वही |
| | १:०० बजे | भोजनावकाश | | | |
| | २:०० बजे अं० द्वितीय संज | अच्चाई, इमानदारी, बुद्धिमानी, उदारता आदि नेता के गुण, नेता की भुमिका व उत्तरदायित्व | संदर्भ पुस्तिका, एवं समूह चर्चा | शमशोर आलम प्रदीप सिंह | मो० अंबुतालिन सरकरी मुख्यमंत्री |
| | ३:०० बजे | चाय का आवकाश | | | |
| | ३:१५ बजे | जीवन की कला और उसका महत्व | संदर्भ पुस्तिका, एवं समूह चर्चा | वही | वही |
| तीसरा दिन १९-०९-१३ | ९:३० बजे पूर्व प्रथम संज | जीवन की शकात्मक संकेत, जैसे-सुशाहाली, आनन्द, प्यार, प्रसन्नता, जौश, सुखी, उदासी, क्रोध, धृष्णा, डर आदि भावनाओं से काम करना | संदर्भ पुस्तिका, वक्तव्य एवं समूह चर्चा | सरकारी मुख्यमंत्री अंबुतालिन अंसारी | अक्षण निहीर शमशोर आलम |
| | ११:०० बजे | चाय का आवकाश | | | |
| | ११:१५ बजे | दबाव की परिभाषा, समना करने के तकिये | संदर्भ पुस्तिका, | वही | वही |
| | १:०० बजे | भोजनावकाश | | | |
| | २:०० बजे अं० द्वितीय संज | पेशागत प्रशिक्षण का महत्व सरकारी पेशागत प्रशिक्षण कार्यक्रम | वक्तव्य एवं समूह चर्चा | सरकारी मुख्यमंत्री अंबुतालिन अंसारी | अक्षण निहीर शमशोर आलम |
| | ३:०० बजे | चाय का आवकाश | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| | ੩:੧੫ ਬਾਜੇ | ਮਹਿਲਾਓਂ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਮਚਿਆਏਂ ਵੱਡਾ ਜਨਾਵਰਾਂ ਮਹਿਲਾਓਂ ਕੇ ਨੀਜੀ ਸੁਰਕਾ, ਕੌਟ, ਪ੍ਰਯੋਗ, ਜਨਮਿਕ ਸੁਰਕਾ, ਸ਼ਿਕਾਹ, ਥਾਈਅਨ ਕੇ ਵਿਕਲਪ, ਅਧਿਕਾਰ | ਸਾਂਦਰਭ ਪ੍ਰੁਕਿਤਕਾ, ਕਰਤਵਾਂ ਏਵਂ ਜਾਮ੍ਹਣ ਚੱਚੀ | ਕਹੀ | ਕਹੀ |
| ਚੌਥਾ ਦਿਨ ੨੦-੦੯-੧੩ | ੯:੩੦ ਬਾਜੇ ਪ੍ਰਥਮ ਜਾਂ | ਧਰੇਤੁ ਮਹਿਲਾ ਹਿੰਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ | ਕਰਤਵਾਂ ਏਵਂ ਜਾਮ੍ਹਣ ਚੱਚੀ | ਕਾਰਕੰਬੀ ਸੁਰਕਾਰੀ ਅਕਲਣ ਨਿਝੀਕ | ਕਿਕਨਡਰ ਆਲਮ ਅਲੁਤਾਲਿਬ ਅੰਜਾਰੀ |
| | ੧੧:੦੦ ਬਾਜੇ | ਚਾਥ ਕਾ ਆਵਕਾਸ਼ | | | |
| | ੧੧:੧੫ ਬਾਜੇ | ਸ਼ਿਕਾਹ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤਕਾਰ, ਤਵਾਗਿਤਾ, ਕਰਕੋਜਗਾਰ | ਕਰਤਵਾਂ | ਕਹੀ | ਕਹੀ |
| | ੧:੦੦ ਬਾਜੇ | ਮੋਜਨੀਕਕਾਸ਼ | | | |
| | ੨:੦੦ ਬਾਜੇ ਅੰਤੇ ਛਿਤੀਅਥ ਜਾਂ | ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਜ਼ੀ ੧੫ ਜੂਨੀ ਯੋਜਨਾ ਕੇ ਅਨਤਰੰਤ ਮਹਿਲਾਓਂ ਕੇ ਲਿਏ ਨਿਹਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ | ਕਰਤਵਾਂ ਏਵਂ ਸਾਂਦਰਭ ਜਾਮ੍ਹਣੀ | ਕਾਰਕੰਬੀ ਸੁਰਕਾਰੀ ਅਕਲਣ ਨਿਝੀਕ | ਕਿਕਨਡਰ ਆਲਮ ਅਲੁਤਾਲਿਬ ਅੰਜਾਰੀ |
| | ੩:੦੦ ਬਾਜੇ | ਚਾਥ ਕਾ ਆਵਕਾਸ਼ | | | |
| | ੩:੧੫ ਬਾਜੇ | ਜਾਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਏਂ ਏਵਂ ਝਨਹੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਤਰੀਕੇ | ਕਰਤਵਾਂ | ਕਹੀ | ਕਹੀ |
| ਪਾਂਚਵਾਂ ਦਿਨ ੨੧-੦੯-੧੩ | ੯:੩੦ ਬਾਜੇ ਪ੍ਰਥਮ ਜਾਂ | ਮਹਿਲਾ ਕਰਕੋਜਗਾਰ ਜਾਂਧ | ਕਰਤਵਾਂ ਏਵਂ ਜਾਮ੍ਹਣ ਚੱਚੀ | ਅਕਲਣ ਨਿਝੀਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਕਿੱਂਹ | ਕਿਕਨਡਰ ਆਲਮ ਕਾਰਕੰਬੀ ਸੁਰਕਾਰੀ |
| | ੧੧:੦੦ ਬਾਜੇ | ਚਾਥ ਕਾ ਆਵਕਾਸ਼ | | | |
| | ੧੧:੧੫ ਬਾਜੇ | ਕਰਕਾਂ ਜਾਹਾਇਤਾ ਜਾਮ੍ਹਣ/ਜਾਂਗਠਨ, ਨੇਟੂਲਵ ਕਾ ਤਪਥੋਗ/ਕਰਕੋਜਗਾਰ ਔਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਕਹਾਨੀ | ਏਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪ੍ਰੋਜੋਕਟਰ | ਕਹੀ | ਕਹੀ |
| | ੧:੦੦ ਬਾਜੇ | ਮੋਜਨੀਕਕਾਸ਼ | | | |
| | ੨:੦੦ ਬਾਜੇ ਅੰਤੇ ਛਿਤੀਅਥ ਜਾਂ | ਕਰਕਾਂ ਜਾਹਾਇਤਾ ਜਾਮ੍ਹਣ ਕਾ ਗਠਨ, ਜਾਮ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਕਰ ਵਾਲੇ ਲਾਭ | ਕਰਤਵਾਂ ਏਵਂ ਜਾਮ੍ਹਣ ਚੱਚੀ | ਅਕਲਣ ਨਿਝੀਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਕਿੱਂਹ | ਕਿਕਨਡਰ ਆਲਮ ਕਾਰਕੰਬੀ ਸੁਰਕਾਰੀ |
| | ੩:੦੦ ਬਾਜੇ | ਚਾਥ ਕਾ ਆਵਕਾਸ਼ | | | |
| | ੩:੧੫ ਬਾਜੇ | ਜੂਝੀ-ਬ੍ਰੋਝੀ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੱਡਾ ਕੁਝਾਲ ਨੇਟੂਲਵ ਦੀ ਏਕ ਸ਼ਾਰਕੀ ਗਾਂਕ ਕੇ ਕਾਥਾ-ਕਲਪ ਕੀ ਕਹਾਨੀ | ਏਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪ੍ਰੋਜੋਕਟਰ | ਕਹੀ | ਕਹੀ |
| ਛਤਾ ਦਿਨ ੨੩-੦੯-੧੩ | ੯:੩੦ ਬਾਜੇ ਪ੍ਰਥਮ ਜਾਂ | ਏਨ.ਆਰ.ਏ.ਚ.ਏਮ ਅਨਤਰੰਤ ਕਰਕਾਂ ਯੋਜਨਾਏਂ ਵੱਡਾ ਲਾਡਲੀ ਲਕਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ | ਕਰਤਵਾਂ | ਅਕਲਣ ਨਿਝੀਕ, ਅਲੁਤਾਲਿਬ ਅੰਜਾਰੀ, ਇਨਡਾਸ਼ਨ ਫੇਵੀ | ਜਾਰਕਾਰੀ ਸੁਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਿੱਂਹ, ਇਨਡਾਸ਼ਨ ਫੇਵੀ |
| | ੧੧:੦੦ ਬਾਜੇ | ਚਾਥ ਕਾ ਆਵਕਾਸ਼ | | | |
| | ੧੧:੧੫ ਬਾਜੇ | ਪਤਿਆਕ ਨਿਯੋਜਨ ਕੇ ਵਾਡਾ-ਅਵਾਡਾ ਤਰੀਕੇ, ਟੀਕਾਕਾਰਣ, ਪ੍ਰਥਮ ਏਵਂ ਕਰਕਾਂ | ਕਰਤਵਾਂ ਏਵਂ ਜਾਮ੍ਹਣ ਚੱਚੀ | ਕਹੀ | ਕਹੀ |
| | ੧:੦੦ ਬਾਜੇ | ਮੋਜਨੀਕਕਾਸ਼ | | | |
| | ੨:੦੦ ਬਾਜੇ ਅੰਤੇ ਛਿਤੀਅਥ ਜਾਂ | ਫੀਡਬੈਕ ਵੱਡਾ ਜਾਮੀਕਾ | | ਅਕਲਣ ਨਿਝੀਕ, ਮੋਹਾਂ ਅਲੁਤਾਲਿਬ, ਇਨਡਾਸ਼ਨ ਫੇਵੀ | ਜਾਰਕਾਰੀ ਸੁਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਿੱਂਹ, ਇਨਡਾਸ਼ਨ ਫੇਵੀ |
| | ੩:੦੦ ਬਾਜੇ | ਚਾਥ ਕਾ ਆਵਕਾਸ਼ | | | |
| | ੩:੧੫ ਬਾਜੇ | ਪ੍ਰਤਿਮਾਗਿਤੀਆਂ ਕੇ ਬੀਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਾਂ ਵਿਤਕਣ | ਜਾਨੁਕਰ ਜਾਂ | ਨਗਰ ਪਾਰਦ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੁਵਿਵਾਦਾ | ਨਗਰ ਪਾਰਦ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੁਵਿਵਾਦਾ |

6 दिवसीय महिला नेतृत्व विकास प्रशिक्षण 2013-14

प्रशिक्षण क्षेत्र: फूलीन वर्किंग कार्यालय परिवार, एवं बीघा, ज़पाहा (भद्रपद)

प्रशिक्षण शिड्यूल बैच-५

| दिन | समय/संज्ञा | प्रशिक्षण का विषय/गतिविधियाँ | प्रशिक्षण का माध्यम | संदर्भ/प्रोत्त्ववित्त |
|-----------------------|-----------------|---|--|--|
| पहला दिन २४-०९-१३ | ९:३० बजे पूर्व | प्रशिक्षणार्थीयों का पंजीयन एवं प्रशिक्षणकिट का वितरण | औपचारिक | संक्षा की महिला कार्यकर्ता |
| | १०:०० बजे पूर्व | उद्घाटन संज्ञा एवं विषय प्रवेश | औपचारिक | संक्षा सचिव, नगर पर्षद उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षद, मिडिया कर्मी |
| | ११:०० बजे | चाय हेटु अवकाश | | |
| | ११:१५ बजे | सांभागियों का परिचय, सामाजिक ढांचा और महिलाएं, प्रथम संज्ञा | वक्तव्य एवं समृह चर्चा | शमशेर आलम,अनिवाण जिजा |
| | १:०० बजे | भोजनावकाश | | |
| | २:०० बजे अंत | महिलाओं का महत्व समृह चर्चा, महिला-पुरुष अंसामनता | वक्तव्य एवं समृह चर्चा | शमशेर आलम,अनिवाण जिजा |
| | द्वितीय संज्ञा | द्वितीय संज्ञा | | |
| | ३:०० बजे | चाय का आवकाश | | |
| | ३:१५ बजे | जीने की कला, समालौचक सौच, वर्जनागत्रकर्ता,विद्यत प्रवृत्ति वर्जनात्मक सौच आदि जीने की कलाएं | वक्तव्य संदर्भ पुस्तिका | शमशेर आलम,अनिवाण जिजा |
| दूसरा दिन २५-०९-१३ | ९:३० बजे पूर्व | भावनात्मक ज्ञान निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावशाली सम्पर्क | संदर्भ पुस्तिका, | अनिवाण जिजा |
| | प्रथम संज्ञा | व अन्तीव्यवितर्गत संबंध आदि की जानकारी | वक्तव्य एवं समृह चर्चा | प्रदीप जिंह |
| | ११:०० बजे | चाय का अवकाश | | |
| | ११:१५ बजे | दबाव का सामग्री करने के उपाय, थातायात बत्ती जैसी समझ़ा | वक्तव्य संदर्भ पुस्तिका | अनिवाण जिजा |
| | २:०० बजे अंत | जीवन की कला और उसका महत्व | | |
| | द्वितीय संज्ञा | जीवन की भुमिका व उत्तरदायित्व | वक्तव्य संदर्भ पुस्तिका एवं समृह चर्चा | प्रदीप जिंह |
| | ३:०० बजे | चाय का आवकाश | | |
| | ३:१५ बजे | जीवन की कला और उसका महत्व | वक्तव्य एवं समृह चर्चा | अनिवाण जिजा, प्रदीप जिंह |
| तीसरा दिन २६-०९-१३ | ९:३० बजे पूर्व | उज्जिवान,लक्ष्यवान,जन सम्पर्क कौशल, ईमानदारी,रणनीतिक | वक्तव्य एवं संदर्भ पुस्तिका | अकृण निझीर |
| | प्रथम संज्ञा | कौशल, सामाजिक कौशल आदि जीवन के गुण | | अबुतालिब अंसारी |
| | ११:०० बजे | चाय का आवकाश | | |
| | ११:१५ बजे | नेतृत्व विकास क्या है? महिला नेतृत्व विकास की अवश्यकता | वक्तव्य एवं समृह चर्चा | |
| | २:०० बजे | भोजनावकाश | | |
| | ३:०० बजे अंत | जोगारपरक जीने की कलाएं | वक्तव्य एवं संदर्भ पुस्तिका | अकृण निझीर |
| | द्वितीय संज्ञा | अरकारी जोगारपरक कार्यक्रमों की जानकारी | | अबुतालिब अंसारी |
| | ३:०० बजे | चाय का आवकाश | | |
| | ३:१५ बजे | लैंगिक उत्पीड़न, दहेज प्रथा, वालविवाह आदि महिलाएं समझ्याएं लिंग चयनित गर्भपात,धरेलु हिंसा,ट्रैफिकिंग आदि की जानकारी | संदर्भ पुस्तिका वक्तव्य एवं समृह चर्चा | अकृण निझीर |
| | | | | अबुतालिब अंसारी |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|--|---|---|
| चौथा दिन २७-०९-१३ | ९:३० बजे पूर्व प्रथम संग | घरेलु महिला हिंसा, ट्रैफिकिंग | वक्तव्य एवं समूह चर्ची | अंकण निझीर, अबुतालिब अंजारी |
| | ११:०० बजे | चाथ का आवकाश | | |
| | ११:१५ बजे | जोगारपंक्ति के शिक्षा, वर्वयं सहायता समूह का गठन घरेलु आथ-संवर्द्धन के तरीके | वक्तव्य एवं समूह चर्ची | अंकण निझीर, अबुतालिब अंजारी |
| | १:०० बजे | भोजनावकाश | | |
| | २:०० बजे अं० द्वितीय संग | अत्पर्संख्यक समुदाय की हितकारी सरकारी योजनाएं हासिल करने के प्रावधान | वक्तव्य एवं समूह चर्ची | अंकण निझीर, मो० अबुतालिब |
| | ३:०० बजे | चाथ का आवकाश | | |
| | ३:१५ बजे | सामाजिक विकास के लिए ईमानदार व निष्पक्ष नेता की अवश्यकता, महिलाओं के उत्थान के लिए महिला नेतृत्व विकास की आवश्यकता | संदर्भ पुस्तका वक्तव्य एवं समूह चर्ची | अंकण निझीर, अबुतालिब अंजारी |
| पांचवां दिन २८-०९-१३ | ९:३० बजे पूर्व प्रथम संग | पिछले दिन की समीक्षा, महिलाओं के अधिकार | वक्तव्य एवं समूह चर्ची | सिकन्दर आलम, हेमलता नारायण |
| | ११:०० बजे | चाथ का आवकाश | | |
| | ११:१५ बजे | झड़ा-झूँझा, जागरूकता व कुशल नेतृत्व के एक शराबी गंतव्य के कार्य-कल्प की कहानी | एलं सी. डी. प्रोजेक्ट वक्तव्य एवं समूह चर्ची | सिकन्दर आलम, हेमलता नारायण |
| | १:०० बजे | भोजनावकाश | | |
| | २:०० बजे अं० द्वितीय संग | जोगार की परिभाषा, जोगार का महत्व, जोगार के प्रकार, सभी प्रबंधन, | वक्तव्य, संदर्भ पुस्तका एवं समूह चर्ची | सिकन्दर आलम, हेमलता नारायण |
| | ३:०० बजे | चाथ का आवकाश | | |
| | ३:१५ बजे | महिलाओं के लिए शैक्षणिक योजनाएं, वर्वयं सहायता समूह के विकास कहानी | एलं सी. डी. प्रोजेक्ट वक्तव्य एवं समूह चर्ची | सिकन्दर आलम, हेमलता नारायण |
| छठा दिन २९-०९-१३ | ९:३० बजे पूर्व प्रथम संग | परिवार नियोजन के क्यार्ड -अक्यार्ड तरीके, टीकाकरण, पोषण एवं व्याया | वक्तव्य एवं समूह चर्ची | मो० अबुतालिब, हेमलता नारायण, इन्द्राजीत देवी |
| | ११:०० बजे | चाथ का आवकाश | | |
| | ११:१५ बजे | एन.आर.एच.एम अंतर्गत व्याया योजनाएं व लाडली लक्षणी योजना | वक्तव्य, एवं समूह चर्ची, ब्लैक बोर्ड | मो० अबुतालिब, हेमलता नारायण, इन्द्राजीत देवी |
| | १:०० बजे | भोजनावकाश | | |
| | २:०० बजे अं० द्वितीय संग | फीडबैक व समीक्षा | | मो० अबुतालिब, हेमलता नारायण, इन्द्राजीत देवी |
| | ३:०० बजे | चाथ का आवकाश | | |
| | ३:१५ बजे | प्रतिभागियों के बीच प्रमाण पंज वितरण | | नगर पर्षद उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षद |

६ दिवसीय महिला नेटूरल विकास प्रशिक्षण २०१३-१४
प्रशिक्षण क्षेत्र: पूर्वीन मुख्यालय परिवार, आंवताळेश्वर, मध्यपुर
प्रशिक्षण शिड्यूल बैच-६

| दिन | समय/जग | प्रशिक्षण का विषय/गतिविधि | प्रशिक्षण का माध्यम | जंदर्भ/श्रोत व्यक्ति |
|-----------------------|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| पहला दिन ०१-१०-१३ | ९:३० बजे पूर्व | प्रशिक्षणार्थीयों का पंजीयन एवं प्रशिक्षणक्रिट का वितरण | औपचारिक | जांक्या की महिला कार्यकर्ता |
| | १०:०० बजे पूर्व | उद्घाटन जग एवं विषय प्रवेश | औपचारिक | पंचायत समिति जंदर्भ |
| | ११:०० बजे | चाय हेतु अवकाश | | |
| | ११:१५ बजे प्रथम जग | जाह्नवीयों का परिचय, महिलाएं और जामाजिक ढांचा लिंग भेद के दुष्परिणाम | वक्तव्य एवं समूह चर्चा | सिकन्दर आलम मो० अब्दुतालिम |
| | १:०० बजे | भोजनावकाश | | |
| | २:०० बजे अंत द्वितीय जग | धार्मिक रुढ़ियां और महिलाएं, अल्पसंख्यक समुदाय में महिलाओं की विधति | वक्तव्य एवं समूह चर्चा | सिकन्दर आलम मो० अब्दुतालिम |
| | ३:०० बजे | चाय का आवकाश | | |
| | ३:१५ बजे | नेता एक परिचय, सच्चाई, अच्छी जीव रखने वाला, क्षित्वाने की क्षमता रखने वाला, पथप्रदर्शक आदि नेता के गुण | जंदर्भ पुस्तिका, वक्तव्य एवं समूह चर्चा | |
| दूसरा दिन ०२-१०-१३ | ९:३० बजे पूर्व | जीने की कला, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, जीने कौशल की जरूरत, | जंदर्भ पुस्तिका, | अक्षण निझीर |
| | प्रथम जग | कौशल की जरूरत, | वक्तव्य एवं समूह चर्चा | मो० अब्दुतालिम |
| | ११:०० बजे | चाय का अवकाश | | |
| | ११:१५ बजे | प्रभावशाली सम्पर्क, अन्तर्व्यवितरण जंबंध भावनामक ज्ञान, रचनामक जीव, आदि जीने की कलाएं | वक्तव्य एवं समूह चर्चा | |
| | १:०० बजे | भोजनावकाश | | |
| | २:०० बजे अंत द्वितीय जग | निर्णय लेना समालौचक जीव, रक्षाग्रस्तता, क्षितप्रकृता, आदि जीवन लौशल के लाभ | जंदर्भ पुस्तिका, वक्तव्य एवं समूह चर्चा | अक्षण निझीर मो० अब्दुतालिम |
| | ३:०० बजे | चाय का आवकाश | | |
| | ३:१५ बजे | दबाव का समना करना, खुशी, उदासी, क्रोध, चिड़चिड़ापन, चिंता, डर, आदि भावनाओं के साथ काम करना, खुशहाली, आनंद, प्रशंनना, आदि जीवनामक जंदेश | जंदर्भ पुस्तिका, वक्तव्य एवं समूह चर्चा | अक्षण निझीर मो० अब्दुतालिम |
| तीसरा दिन ०३-१०-१३ | ९:३० बजे पूर्व | व्यक्ति के मुन्त्र जंवर्द्धन में पेशागत प्रशिक्षण की भूमिका, पेशागत प्रशिक्षण के सरकारी प्रतिष्ठान | वक्तव्य, समूह चर्चा एवं जंदर्भ पुस्तिका, | अक्षण निझीर हेमलता नारायण |
| | प्रथम जग | चाय का आवकाश | | |
| | ११:०० बजे | चाय का आवकाश | | |
| | ११:१५ बजे | लैंगिक उत्पीड़न, दहेज प्रथा, वालविवाह आदि समस्याएं, लिंग चयनित जरीपात, घरेलू हिंसा, ट्रैफिकिंग आदि की जानकारी | जंदर्भ पुस्तिका, वक्तव्य एवं समूह चर्चा | अक्षण निझीर मो० अब्दुतालिम |
| | १:०० बजे | भोजनावकाश | | |
| | २:०० बजे अंत द्वितीय जग | जामाजिक विकास के लिए इमानदार व निष्पक्ष नेता की अवश्यकता, महिलाओं के उत्थान के लिए महिला नेटूरल | जंदर्भ पुस्तिका, वक्तव्य एवं समूह चर्चा | अक्षण निझीर मो० अब्दुतालिम |

| | | | | |
|-------------------------|--------------|--|---|--|
| सौया दिन ०४-१०-१३ | ३:०० बजे | चाय का आवकाश | | |
| | ३:१५ बजे | महिलाओं की समर्था और समाधान महिलाओं अधिकारों की आवश्यकता | वक्तव्य एवं समूह चर्चा | अक्षण निहीर मो० अबुतालिब |
| | ९:३० बजे पू० | रोजगारपत्रक योजने की कलाएं प्रथम संग | वक्तव्य एवं समूह चर्चा | अक्षण निहीर सिकन्दर आलम |
| | ११:०० बजे | चाय का आवकाश | | |
| | ११:१५ बजे | झूँझा-बूँझा, जागरूकता व कुशल नेटवर्क औ एक शाब्दी गांव के कामा-कर्त्त्व की कहानी | एल सी. डी. प्रोजेक्टर एवं समूह चर्चा | अक्षण निहीर सिकन्दर आलम |
| | १:०० बजे | भोजनावकाश | | |
| | २:०० बजे अ० | अल्पसंख्यक समुदाय की हितकारी सरकारी योजनाएं द्वितीय संग | वक्तव्य एवं समूह चर्चा | अक्षण निहीर सिकन्दर आलम |
| | ३:०० बजे | चाय का आवकाश | वक्तव्य एवं समूह चर्चा | |
| | ३:१५ बजे | घरेलू महिला हिंसा ट्रॉफिकिंग से बचाव | | अक्षण निहीर, सिकन्दर आलम |
| | ९:३० बजे पू० | पिछले दिन की समीक्षा, महिलाओं के अधिकार प्रथम संग | वक्तव्य एवं समूह चर्चा | हवाधान मुख्यमंत्री अक्षण निहीर |
| पांचवां दिन ०५-१०-१३ | ११:०० बजे | चाय का आवकाश | | |
| | ११:१५ बजे | रोजगार की परिभाषा, रोजगार के प्रकार, घरेलू समय प्रबंधन से विकास कहानी | वक्तव्य, समूह चर्चा एवं ब्लैक बोर्ड | हवाधान मुख्यमंत्री अक्षण निहीर |
| | १:०० बजे | भोजनावकाश | | |
| | २:०० बजे अ० | , रोजगारपत्रक शिक्षा, वर्त्यं सहायता समूह का गठन द्वितीय संग | वक्तव्य, समूह चर्चा एवं ब्लैक बोर्ड | हवाधान मुख्यमंत्री अक्षण निहीर |
| | ३:०० बजे | चाय का आवकाश | | |
| | ३:१५ बजे | महिलाओं के लिए शैक्षणिक योजनाएं, वर्त्यं सहायता समूह से विकास कहानी | एल सी. डी. प्रोजेक्टर एवं समूह चर्चा | हवाधान मुख्यमंत्री अक्षण निहीर |
| | ९:३० बजे पू० | आई.सी.डी.एस., टीकाकरण, पोषण एवं व्याय | वक्तव्य एवं समूह चर्चा | हवाधान मुख्यमंत्री, मो० अबुतालिब इन्द्राजन देवी |
| | ११:०० बजे | चाय का आवकाश | | |
| | ११:१५ बजे | एन.आर.एच.एम अंतर्रात व्याकरण योजनाएं व लोडली लक्षणी योजना | वक्तव्य एवं समूह चर्चा | हवाधान मुख्यमंत्री, मो० अबुतालिब इन्द्राजन देवी |
| | १:०० बजे | भोजनावकाश | | |
| छठा दिन ०६-१०-१३ | २:०० बजे अ० | फीडबैक व समीक्षा | | हवाधान मुख्यमंत्री, मो० अबुतालिब इन्द्राजन देवी |
| | ३:०० बजे | चाय का आवकाश | | |
| | ३:१५ बजे | प्रतिभागियों के बीच प्रभाण पर्ज वितरण | | मुख्यमंत्री |

६ दिवसीय महिला नेटुर्ट्व विकास प्रशिक्षण २०१३-१४

प्रशिक्षण स्थल: पूँजे रेलवे भारत स्कोउट एण्ड गार्ड इक्स्टेट ट्रेनिंग पार्क, मधुपुर

बैच-७ व बैच-८, प्रशिक्षण शिड्यूल

| दिन | समय/संज | प्रशिक्षण का विषय/नियमिति | प्रशिक्षण का माध्यम | संदर्भ/श्रोत व्यक्ति बैच -७ | संदर्भ/श्रोत व्यक्ति बैच -८ |
|-------------------------|----------------|---|--|--|--|
| पहला दिन १०-१०-१३ | ९:३० बजे पूँ० | प्रशिक्षणार्थीयों का पंजीयन एवं प्रशिक्षणकिट का वितरण, संयुक्त संज | औपचारिक | संस्था की महिला कार्यकर्ता कार्यकर्ता, बहागुनी हेमबोम मुखिया, वार्ड पार्षद | संस्था की महिला कार्यकर्ता वेशमा प्रवीण मुखिया, वार्ड पार्षद |
| | १०:०० बजे पूँ० | उद्घाटन संज एवं विषय प्रवेश, संयुक्त संज | औपचारिक | | |
| | ११:०० बजे | चाय हेतु आवकाश | | | |
| | ११:१५ बजे | सहभागियों का परिचय, महिला-अर्थ एवं प्रथम संज | वक्तव्य एवं समूह चर्चा | शमशेर आलम प्रदीप सिंह | अबुतालिब अंजारी, अरुण निहीर |
| | १:०० बजे | भोजनावकाश | | | |
| | २:०० बजे ५० | अल्पसंख्यक वया है?, अल्पसंख्यक महिलाओं की स्थिति | वक्तव्य एवं समूह चर्चा | शमशेर आलम प्रदीप सिंह | अबुतालिब अंजारी अरुण निहीर |
| | ३:०० बजे | चाय का आवकाश | | | |
| | ३:१५ बजे | नेटुर्ट्व की परिभाषा, नेता के आवश्यक गुण | संदर्भ पुस्तिका, वक्तव्य एवं समूह चर्चा | शमशेर आलम प्रदीप सिंह | अबुतालिब अंजारी अरुण निहीर |
| द्वितीय दिन १०-१०-१३ | ९:३० बजे पूँ० | महिला नेटुर्ट्व वयों? | संदर्भ पुस्तिका, | शमशेर आलम | हराधन मुखर्जी |
| | प्रथम संज | नेटुर्ट्व विकास प्रशिक्षण वया है? | प्रदीप सिंह | | अरुण निहीर |
| | ११:०० बजे | चाय का आवकाश | शमशेर आलम | | |
| | ११:१५ बजे | महिलाओं से संबंधित, बाल विवाह, दहेज प्रथा, लौंगिक उत्पीड़न आदि की समस्याए | संदर्भ पुस्तिका, वक्तव्य, समूह चर्चा एवं ब्लॉक बोर्ड | प्रदीप सिंह | हराधन मुखर्जी अरुण निहीर |
| | १:०० बजे | भोजनावकाश | | | |
| | २:०० बजे ५० | ट्रैफिकिंग घरेलु महिला हिंसा, लिंग वर्गित गर्भपात, समस्या और समाधान | संदर्भ पुस्तिका एवं समूह चर्चा | शमशेर आलम प्रदीप सिंह | हराधन मुखर्जी अरुण निहीर |
| | ३:०० बजे | चाय का आवकाश | | | |
| | ३:१५ बजे | नेता का महत्व, नेटुर्ट्व के बुनियादी गुण | संदर्भ पुस्तिका, वक्तव्य, समूह चर्चा | शमशेर आलम प्रदीप सिंह | हराधन मुखर्जी अरुण निहीर |
| तीसरा दिन १४-१०-१३ | ९:३० बजे पूँ० | जीने की कलाएं- सामालौचक सौच, स्वजागरकर्ता, स्थित प्रकृता, वचनात्मक सौच, भावनात्मक ज्ञान व निर्णय लेने की क्षमता आदि | संदर्भ पुस्तिका, वक्तव्य, समूह चर्चा एवं ब्लॉक बोर्ड | अरुण निहीर अबुतालिब अंजारी | सरकारी मुखर्जी सिकन्दर आलम |
| | प्रथम संज | | | | |
| | ११:०० बजे | चाय का आवकाश | | | |
| | ११:१५ बजे | सुखमय जीवन के लिए कौशल विकास का महत्व व्यवसायिक प्रशिक्षण से होता कौशल विकास | वक्तव्य, समूह चर्चा | अरुण निहीर अबुतालिब अंजारी | सरकारी मुखर्जी सिकन्दर आलम |
| | १:०० बजे | भोजनावकाश | | | |
| चौथा दिन १५-१०-१३ | २:०० बजे ५० | महिलाओं के संत्रैधानिक अधिकार विकास के लिए दृढ़ निष्ठा और आगे बढ़ने की सौच | संदर्भ पुस्तिका, वक्तव्य, समूह चर्चा | अरुण निहीर अबुतालिब अंजारी | सरकारी मुखर्जी सिकन्दर आलम |
| | द्वितीय संज | | | | |

| ३:०० बजे | | चाय का आवकाश | | | |
|-------------------------|----------------|--|--|--|---|
| चौथा दिन १५-१०-१३ | ३:१५ बजे | अल्पसंख्यकों के विकास के लिए प्रधानमंत्री १५ वक्तव्य, जमूह चर्ची | अरुण निहिर | सरकारी मुख्यमंत्री | |
| | ९:३० बजे पूर्व | जनाधिकार मुकदमा महिलाओं के लिए शैक्षणिक योजनाएं | एल डी. डी. प्रोजेक्टर वक्तव्य एवं जमूह चर्ची | अरुण निहिर अबुतालिब अंशाबी | सरकारी मुख्यमंत्री सिक्किम आलम |
| | ११:०० बजे | चाय का आवकाश | | | |
| | ११:१५ बजे | सर्वं सहायता जमूह एकमुट्ठा, वर्वजोगार और विकास एक सच्ची कहानी | एल डी. डी. प्रोजेक्टर, वक्तव्य एवं जमूह चर्ची | अरुण निहिर अबुतालिब अंशाबी | सरकारी मुख्यमंत्री सिक्किम आलम |
| | १:०० बजे | भोजनावकाश | | | |
| | २:०० बजे ३० | प्रधानमंत्री रोजगार योजना द्वितीय भाग | वक्तव्य एवं जमूह चर्ची | अरुण निहिर अबुतालिब अंशाबी | सरकारी मुख्यमंत्री सिक्किम आलम |
| पांचवां दिन १६-१०-१३ | ३:०० बजे | चाय का आवकाश | | | |
| | ३:१५ बजे | आपकी जूङा-बूङा, नेवृत्ति व ग्राम जागरूकता और गांव का कायाकल्प एक प्रेरक कहानी | एल डी. डी. प्रोजेक्टर वक्तव्य एवं जमूह चर्ची | अरुण निहिर अबुतालिब अंशाबी | सरकारी मुख्यमंत्री सिक्किम आलम |
| | ९:३० बजे पूर्व | ज्वाहर ग्राम जमूदि योजना प्रथम भाग | वक्तव्य एवं जमूह | सरकारी मुख्यमंत्री, सिक्किम आलम | प्रदीप कुमार सिंह शमशेर आलम |
| | ११:०० बजे | चाय का आवकाश | | | |
| | ११:१५ बजे | महिला व रोजगार | वक्तव्य एवं जमूह चर्ची | सरकारी मुख्यमंत्री सिक्किम आलम | प्रदीप कुमार सिंह शमशेर आलम |
| | १:०० बजे | भोजनावकाश | | | |
| छठा दिन १७-१०-१३ | २:०० बजे ३० | सर्वं जयंती वर्वजोगार योजना द्वितीय भाग | वक्तव्य एवं जमूह चर्ची | सरकारी मुख्यमंत्री सिक्किम आलम | प्रदीप कुमार सिंह शमशेर आलम |
| | ३:०० बजे | चाय का आवकाश | | | |
| | ३:१५ बजे | सर्वं सहायता जमूह का नियमित संचालन और होने वाले लाभ | वक्तव्य एवं जमूह चर्ची | सरकारी मुख्यमंत्री सिक्किम आलम | प्रदीप कुमार सिंह शमशेर आलम |
| | ९:३० बजे पूर्व | परिवार नियोजन का महत्व, लोडली लक्ष्मी योजना प्रथम भाग | वक्तव्य एवं जमूह चर्ची | सरकारी मुख्यमंत्री, सिक्किम आलम, इन्द्राजन देवी | प्रदीप सिंह, अबुतालिब अंशाबी, इन्द्राजन देवी |
| | ११:०० बजे | चाय का आवकाश | | | |
| | ११:१५ बजे | एन.आर.एच.एम. के तहत मिलने वाली ज्वायता जुकियाएं, ममता वाहन, मतृत्व लाभ योजना, | वक्तव्य एवं जमूह चर्ची | सरकारी मुख्यमंत्री, सिक्किम आलम, इन्द्राजन देवी | प्रदीप सिंह, अबुतालिब अंशाबी, इन्द्राजन देवी |
| छठा दिन १८-१०-१३ | १:०० बजे | भोजनावकाश | | | |
| | २:०० बजे ३० | प्रशिक्षण का समीक्षा द्वितीय भाग | | सरकारी मुख्यमंत्री, सिक्किम आलम, इन्द्राजन देवी | प्रदीप सिंह, अबुतालिब अंशाबी, इन्द्राजन देवी |
| | ३:०० बजे | चाय का आवकाश | | | |
| | ३:१५ बजे | प्रतिभागियों के बीच प्रमाण पर्यावरण संस्कृत भाग | | जिला कल्याण पदाधिकारी, प्रमुख, महिला प्रकार पदाधिकारी | |

६ दिवसीय महिला नेटुरल विकास प्रशिक्षण २०१३-१४

प्रशिक्षण स्थल: पंचायत भवन, करौला (करौल)

बैच-९ व बैच-१०, प्रशिक्षण शिड्यूल

| दिन | जामिय/सार्ज | प्रशिक्षण का विषय/गतिविधियाँ | प्रशिक्षण का माध्यम | संदर्भ/प्रोत्त व्यक्ति बैच-९ | संदर्भ/प्रोत्त व्यक्ति बैच-१० |
|-----------------------|-----------------------------------|---|---|------------------------------------|-------------------------------|
| पहला दिन २९-१०-१३ | ९:३० बजे पूर्व १०:०० बजे पूर्व | प्रशिक्षणार्थीयों का पंजीयन एवं प्रशिक्षणकिट का वितरण | औपचारिक | जांक्या की महिला कार्यकर्ता | जांक्या की महिला कार्यकर्ता |
| | ११:०० बजे | उद्घाटन सार्ज एवं विषय प्रवेश संयुक्त सर्ज | औपचारिक | मुखिया, उपप्रभुरुच, जांक्या जाचित, | |
| | ११:१५ बजे | चाय हेतु अवकाश | | | |
| | प्रयाम सार्ज | अहमागियों का परिचय अल्पसंख्यक क्या है? | वक्तव्य एवं समूह चर्चा | अक्षण निझीर सिकन्दर आलम | प्रदीप किंह महबूब आलम |
| | १:०० बजे | भोजनावकाश | | | |
| | २:०० बजे अंत द्वितीय सार्ज | जूटि में महिलाओं का योगदानता धार्मिक जड़ियाँ अंधविश्वास और महिलाएं | वक्तव्य एवं समूह चर्चा | अक्षण निझीर सिकन्दर आलम | प्रदीप किंह महबूब आलम |
| | ३:०० बजे | चाय का अवकाश | | | |
| | ३:१५ बजे | नेता कौन? नेता के आवश्यक गुण नेता का उत्तरदायित्व | संदर्भ पुस्तिका, वक्तव्य एवं समूह चर्चा | अक्षण निझीर सिकन्दर आलम | प्रदीप किंह महबूब आलम |
| दूसरा दिन ३०-१०-१३ | ९:३० बजे पूर्व प्रयाम सार्ज | नेटुरल विकास प्रशिक्षण का तात्परी महिला नेटुरल की आवश्यकता | संदर्भ पुस्तिका, वक्तव्य एवं समूह चर्चा | अक्षण निझीर सिकन्दर आलम | प्रदीप किंह महबूब आलम |
| | ११:०० बजे | चाय का अवकाश | | | |
| | ११:१५ बजे | भामालौचक जौच, वर्जागरुकता, जियत प्रज्ञाता, वर्चनात्मक जौच, भावनात्मक ज्ञान व निर्णय लेने की क्षमता आदि जीने की कलाएं- | संदर्भ पुस्तिका एवं वक्तव्य | अक्षण निझीर सिकन्दर आलम | प्रदीप किंह महबूब आलम |
| | १:०० बजे | भोजनावकाश | | | |
| | २:०० बजे अंत द्वितीय सार्ज | जीवन के लिए कौशल विकास का महत्व, जीने की कला का विकास है व्यवसायिक प्रशिक्षण | संदर्भ पुस्तिका, वक्तव्य एवं समूह चर्चा | अक्षण निझीर सिकन्दर आलम | प्रदीप किंह महबूब आलम |
| | ३:०० बजे | चाय का अवकाश | | | |
| | ३:१५ बजे | नेता और नेता के लिए आवश्यक ग्रन्थां, उदाहरण, बुद्धिमानी, प्राथमिकता तथा करने की क्षमता, माननीय बंसांदों की जानकारी, वर्णनीतिकौशल आदि गुण | संदर्भ पुस्तिका, वक्तव्य एवं समूह चर्चा | अक्षण निझीर सिकन्दर आलम | प्रदीप किंह महबूब आलम |
| तीसरा दिन ३१-१०-१३ | ९:३० बजे पूर्व प्रयाम सार्ज | बाल विवाह, दहेज प्रथा, लौगिक उत्पीड़न आदि महिलाओं को संबंधित जासूस्याएं | संदर्भ पुस्तिका, वक्तव्य एवं समूह चर्चा | अबुतालिब अंसारी प्रदीप किंह | सुजाता कुमारी सिकन्दर आलम |
| | ११:०० बजे | चाय का अवकाश | | | |
| | ११:१५ बजे | आपसी भूँझ-भूँझ, नेटुरल व ग्राम जागरुकता जो गांव का कायाकल्प एक प्रेरक कहानी | एल सी. डी. प्रोजेक्टर वक्तव्य एवं समूह चर्चा | अबुतालिब अंसारी प्रदीप किंह | सुजाता कुमारी सिकन्दर आलम |
| | १:०० बजे | भोजनावकाश | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| | २:०० बजे अ० | महिलाओं के लिए शिक्षा और वर्कशोर्जगार के वक्तव्य एवं समूह चर्चा | अनुतालिङ् अंसारी प्रदीप सिंह | सुजाता कुमारी सिकन्दर आलम | |
| | ३:०० बजे | चाय का आवकाश | | | |
| | ३:१५ बजे | वर्तमान स्थायता समूह, एक्स्ट्रोटो, वर्कशोर्जगार और विकास एक सच्ची कठानी | एल श्री. डी. प्रोजेक्टर वक्तव्य एवं समूह चर्चा | अनुतालिङ् अंसारी प्रदीप सिंह | सुजाता कुमारी सिकन्दर आलम |
| चौथा दिन ०१-११-१३ | ९:३० बजे पू० | समय प्रबंधन | संदर्भ पुस्तिका, वक्तव्य | अनुतालिङ् अंसारी | सुजाता कुमारी |
| | प्रयाम अ० | दबाव का सामना करना | एवं समूह चर्चा | प्रदीप सिंह | सिकन्दर आलम |
| | ११:०० बजे | चाय का आवकाश | | | |
| | ११:१५ बजे | ट्रैफिकिंग, घरेलू महिला हिंसा, लिंग चर्यानित गर्भपात, समस्या और समाधान | संदर्भ पुस्तिका, वक्तव्य एवं समूह चर्चा | अनुतालिङ् अंसारी प्रदीप सिंह | सुजाता कुमारी सिकन्दर आलम |
| | १:०० बजे | भोजनावकाश | | | |
| | २:०० बजे अ० | अल्पसंख्यक समुदाय के हित प्रधानमंत्री की १५ जूनी योजना का महत्व | वक्तव्य एवं समूह चर्चा | अनुतालिङ् अंसारी प्रदीप सिंह | सुजाता कुमारी सिकन्दर आलम |
| | ३:०० बजे | चाय का आवकाश | | | |
| | ३:१५ बजे | महिलाओं के मानविकास | वक्तव्य एवं समूह चर्चा | अनुतालिङ् अंसारी, प्रदीप सिंह | सुजाता, सिकन्दर आलम |
| पांचवां दिन ०२-११-१३ | ९:३० बजे पू० | व्यवसायिक प्रशिक्षण का महत्व | वक्तव्य एवं समूह चर्चा | सुजाता कुमारी | अकृण निझीर |
| | प्रयाम अ० | महिला वर्कशोर्जगार के अवसर | | सिकन्दर आलम | हेमलता नारायण |
| | ११:०० बजे | चाय का आवकाश | | | |
| | ११:१५ बजे | स्थायता समूह का नियमित संचालन और होने वाले लाभ | वक्तव्य एवं समूह चर्चा | सुजाता कुमारी सिकन्दर आलम | अकृण निझीर हेमलता नारायण |
| | १:०० बजे | भोजनावकाश | | | |
| | २:०० बजे अ० | वर्षण जर्यों वर्कशोर्जगार योजना | वक्तव्य एवं समूह चर्चा | सुजाता कुमारी | अकृण निझीर |
| | द्वितीय अ० | मनरेगा व जीवन्त ग्राम समृद्धि योजना | | सिकन्दर आलम | हेमलता नारायण |
| | ३:०० बजे | चाय का आवकाश | | | |
| | ३:१५ बजे | घर एवं कार्य स्थल पर समय का समुचित प्रबंधन | संदर्भ पुस्तिका, समूह चर्चा | सुजाता कुमारी सिकन्दर आलम | अकृण निझीर हेमलता नारायण |
| छठा दिन ०३-११-१३ | ९:३० बजे पू० | महिला वर्कश्या और समेकित बाल विकास जैवा का दायित्व | वक्तव्य एवं समूह चर्चा | सुजाता | अकृण निझीर |
| | प्रयाम अ० | | | सिकन्दर आलम | हेमलता नारायण |
| | ११:०० बजे | चाय का आवकाश | | | |
| | ११:१५ बजे | परिवार नियोजन, लाडली लड़भी योजना, इन.आर.एच.एम. के तहत मिलने वाली वर्कश्या सुविधाएं | वक्तव्य एवं समूह चर्चा | सुजाता कुमारी सिकन्दर आलम | अकृण निझीर हेमलता नारायण |
| | १:०० बजे | भोजनावकाश | | | |
| | २:०० बजे अ० | प्रतिभागियों द्वारा फीडबैक व प्रशिक्षण की समीक्षा | | सुजाता कुमारी | अकृण निझीर |
| | द्वितीय अ० | | | सिकन्दर आलम | हेमलता नारायण |
| | ३:०० बजे | चाय का आवकाश | | | |
| | ३:१५ बजे | प्रतिभागियों के बीच प्रभाण पर्ज वितरण | अंदुकत अ० | मुख्यमंथा एवं उपप्रमुख | |

૬ દિવસીય મહિલા નેતૃત્વ વિકાસ પ્રશ્નિક્ષણ ૨૦૧૩-૧૪

પ્રશ્નિક્ષણ ક્ષટ્ર: પંચાયત ભવન, પથલગોર એવં જામાગુડી (મધ્યપુર)

બૈચ-૧૧ વિષયે બૈચ-૧૨, પ્રશ્નિક્ષણ શિડ્ડ્રલ

| દિન | જામય/સાજ | પ્રશ્નિક્ષણ કા વિષય/ગતિવિધિઓ | પ્રશ્નિક્ષણ કા માધ્યમ | સંદર્ભ/ઓત વ્યક્તિત બૈચ-૧૧ | સંદર્ભ/ઓત વ્યક્તિત બૈચ-૧૨ |
|-----------|-----------------|--|---|-----------------------------|---------------------------------|
| પહુલા દિન | ૯:૩૦ બજે પૂર્વ | પ્રશ્નિક્ષણાર્થીઓની કા પર્યાયન એવં પ્રશ્નિક્ષણકિટ કા વિતરણ | ઔપचારિક | સંક્ષા કી મહિલા કાર્યીકર્તા | સંક્ષા કી મહિલા કાર્યીકર્તા |
| ૦૬-૧૧-૧૩ | ૧૦:૦૦ બજે પૂર્વ | ઉદ્ઘાટન સાજ એવં વિષયો પ્રવેશ | ઔપचારિક | મુદ્રિકા | મુદ્રિકા, પંચાયત, જામિતિ સાદર્ય |
| | ૧૧:૦૦ બજે | ચાય હેતુ અવકાશ | | | |
| | ૧૧:૧૫ બજે | અહુમાગિયોની કા પરિચય, અલ્પસંવ્યક્ત શબ્દ કી પરિભાષા, મહિલા હોને કા અર્થ | વચતવ્ય એવં સમૂહ ચર્ચા | અબૃતાલિબ અંસારી મંગલ જૌરેન | પ્રદીપ સિંહ અરૂણ નિર્ણિય |
| | ૧:૦૦ બજે | ભોજનાવકાશ | | | |
| | ૨:૦૦ બજે અંદર | ધર્મ અંધારિશ્વાસ ઔર મહિલાએ અલ્પસંવ્યક્ત જમુદાય મેં મહિલાઓની કી વિધતિ | વચતવ્ય એવં સમૂહ ચર્ચા | અબૃતાલિબ અંસારી મંગલ જૌરેન | પ્રદીપ સિંહ અરૂણ નિર્ણિય |
| | ૩:૦૦ બજે | ચાય કા આવકાશ | | | |
| | ૩:૧૫ બજે | નેતા ઔર નેતા કે લિએ આવશ્યક નાગતો, ઉદારતા, બુદ્ધિમાની, પ્રાથમિકતા તથ કરતે કી ક્ષમતા, માનનીયા, બંસથીં કી જાગ્રત્તા, રણનીતિકૌશલ આવિ ગુણ | સંદર્ભ પુરિતકા, વચતવ્ય એવં સમૂહ ચર્ચા | અબૃતાલિબ અંસારી મંગલ જૌરેન | પ્રદીપ સિંહ અરૂણ નિર્ણિય |
| દૂસરા દિન | ૯:૩૦ બજે પૂર્વ | નેતૃત્વ વિકાસ પ્રશ્નિક્ષણ કા મહત્વ | વચતવ્ય એવં સમૂહ ચર્ચા | અબૃતાલિબ અંસારી | પ્રદીપ સિંહ |
| ૦૯-૧૧-૧૩ | પ્રથમ સાજ | મહિલા નેતૃત્વ કી આવશ્યકતા | | મંગલ જૌરેન | અરૂણ નિર્ણિય |
| | ૧૧:૦૦ બજે | ચાય કા આવકાશ | | | |
| | ૧૧:૧૫ બજે | ભવય અહ્યાયા સમૂહ, એકગુંઠા, ભવનાગરાર ઔર વિકાસ એક બાચ્ચી કહાની | એલ સી. ડી. પ્રોજેક્ટર વચતવ્ય એવં સમૂહ ચર્ચા | અબૃતાલિબ અંસારી મંગલ જૌરેન | પ્રદીપ સિંહ અરૂણ નિર્ણિય |
| | ૧:૦૦ બજે | ભોજનાવકાશ | | | |
| | ૨:૦૦ બજે અંદર | જીવિન કે લિએ કૌશલ વિકાસ કા મહત્વ, જીવિન કી કલા કા વિકાસ હૈ વ્યવસ્થાયિક પ્રશ્નિક્ષણ | સંદર્ભ પુરિતકા, વચતવ્ય એવં સમૂહ ચર્ચા | અબૃતાલિબ અંસારી મંગલ જૌરેન | પ્રદીપ સિંહ અરૂણ નિર્ણિય |
| | ૩:૦૦ બજે | ચાય કા આવકાશ | | | |
| | ૩:૧૫ બજે | આપકી ઝૂઝા-ઝૂઝા, નેતૃત્વ વિષયો ગાંધી કા કાયાકલ્પ એક પ્રેરક કહાની | એલ સી. ડી. પ્રોજેક્ટર વચતવ્ય એવં સમૂહ ચર્ચા | અબૃતાલિબ અંસારી મંગલ જૌરેન | પ્રદીપ સિંહ અરૂણ નિર્ણિય |
| તૃદિન | ૯:૩૦ બજે પૂર્વ | સમાલોચક જૌરે, ભવનાગરાર, વિધિત પ્રદ્રાતા, ભચનાત્મક જૌરે, ભાવનાત્મક જૌરે વિનિય લેને કી ક્ષમતા આવિ જીવિન કી કલાએ- | સંદર્ભ પુરિતકા, વચતવ્ય એવં સમૂહ ચર્ચા | અરૂણ નિર્ણિય સુજાતા કૃમારી | અબૃતાલિબ અંસારી મંગલ જૌરેન |
| ૧૦-૧૧-૧૩ | પ્રથમ સાજ | | | | |
| | ૧૧:૦૦ બજે | ચાય કા આવકાશ | | | |
| | ૧૧:૧૫ બજે | બાળ વિકાસ, દહેં પ્રથા, લોંગિક ઉત્પીડન આવિ મહિલાઓની સંબંધિત સમસ્યાએ | સંદર્ભ પુરિતકા, વચતવ્ય એવં સમૂહ ચર્ચા | અરૂણ નિર્ણિય સુજાતા કૃમારી | અબૃતાલિબ અંસારી મંગલ જૌરેન |
| | ૧:૦૦ બજે | ભોજનાવકાશ | | | |
| | ૨:૦૦ બજે અંદર | મહિલાઓની કી લિએ શિક્ષા ઔર ભવનાગરાર કી અવકાશ | વચતવ્ય એવં સમૂહ ચર્ચા | અરૂણ નિર્ણિય સુજાતા કૃમારી | અબૃતાલિબ અંસારી મંગલ જૌરેન |
| | ૩:૦૦ બજે અંદર | | | | |

| 3:00 बजे | चाय का आवकाश | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|--|
| 3:15 बजे | शिक्षा, जामानिक सुबक्षा, नीजि सुबक्षा, प्रजनन व शोषण के विकल्प महिलाओं के काबूनी अधिकार | संदर्भ पुस्तिका, वक्तव्य एवं समृह चर्चा | अकृण निझीर सुजाता कुमारी | अब्रुतालिब अंजामी मंगल जोरेन |
| चौथा दिन ११-११-१३ प्रथम रात्रि | ९:३० बजे पूर्व गर्भपात, समस्या और समाधान | ट्रैफिकिंग, घरेलू महिला हिंसा, लिंग चर्यनित | संदर्भ पुस्तिका, वक्तव्य एवं समृह चर्चा | अकृण निझीर सुजाता कुमारी |
| ११:०० बजे | चाय का आवकाश | | | |
| ११:१५ बजे | शारीरिक व मानसिक दबाव का समान करना कोष, डर, उदासी, रुक्षरी, आदि भावना के साथ काम करना | संदर्भ पुस्तिका, वक्तव्य एवं समृह चर्चा | अकृण निझीर सुजाता कुमारी | अब्रुतालिब अंजामी मंगल जोरेन |
| १:०० बजे | भोजनावकाश | | | |
| २:०० बजे अं० द्वितीय रात्रि | रुक्षरात्रियां, आनंद, प्यार जैसे सकारात्मक संकेतों व यातायात बत्ती जैसी समझा ठहरें, खोचें और काम में लग जाएं के साथ काम करना | वक्तव्य, समृह चर्चा एवं ब्लॉक बौर्ड | अकृण निझीर सुजाता कुमारी | अब्रुतालिब अंजामी मंगल जोरेन |
| ३:०० बजे | चाय का आवकाश | | | |
| ३:१५ बजे | वर्षा जहायता समृह का नियमित संचालन जै होने वाले लाभ | वक्तव्य एवं समृह चर्चा | अकृण निझीर सुजाता कुमारी | अब्रुतालिब अंजामी मंगल जोरेन |
| पांचवां दिन १२-११-१३ प्रथम रात्रि | ९:३० बजे पूर्व महिला व्यवसायक अवकाश | व्यवसायिक प्रशिक्षण का महत्व | वक्तव्य एवं समृह चर्चा | मंगल जोरेन हरधन मुख्यजी |
| ११:०० बजे | चाय का आवकाश | | | |
| ११:१५ बजे | परिवार नियोजन, लाडली लक्ष्मी योजना, एन.आर.एच. एम. के तहत मिलने वाली व्यायाय सुनिधाएं, | वक्तव्य एवं समृह चर्चा | मंगल जोरेन हरधन मुख्यजी | अकृण निझीर सुजाता कुमारी |
| १:०० बजे | भोजनावकाश | | | |
| २:०० बजे अं० द्वितीय रात्रि | महिला व्यवस्था और समीकृत बाल विकास योजना का दायित्व | वक्तव्य एवं समृह चर्चा | मंगल जोरेन हरधन मुख्यजी | अकृण निझीर सुजाता कुमारी |
| ३:०० बजे | चाय का आवकाश | | | |
| ३:१५ बजे | घर एवं कार्य क्षेत्रों पर समय का समूचित प्रबंधन | वक्तव्य एवं समृह चर्चा | मंगल जोरेन हरधन मुख्यजी | अकृण निझीर सुजाता कुमारी |
| छठा दिन १३-११-१३ प्रथम रात्रि | ९:३० बजे पूर्व ग्राम समृद्धि योजना | वर्षा जर्यावारी व्यवसायक योजना, मनकर्मा व जलाहर का महत्व | वक्तव्य एवं समृह चर्चा | मंगल जोरेन हरधन मुख्यजी |
| ११:०० बजे | चाय का आवकाश | | | |
| ११:१५ बजे | व्यक्ति के मुल्य संवर्द्ध में व्यवसायिक प्रशिक्षण का महत्व | वक्तव्य एवं समृह चर्चा | मंगल जोरेन हरधन मुख्यजी | अकृण निझीर अब्रुतालिब अंजामी |
| १:०० बजे | भोजनावकाश | | | |
| २:०० बजे अं० द्वितीय रात्रि | प्रतिभागियों जै फीडबॉक व प्रशिक्षण की समीक्षा | | मंगल जोरेन हरधन मुख्यजी | अकृण निझीर, अब्रुतालिब अंजामी |
| ३:०० बजे | चाय का आवकाश | | | |
| ३:१५ बजे | प्रतिभागियों के बीच प्रभाण पर्जन वितरण | | मुख्यवाच, परिषद शदृश्य | मुख्यवाच, पंचायत समिति एवं जिला परिषद शदृश्य |

